

- (क) व्यक्ति;  
 (ख) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;  
 (ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और  
 (घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा,  
 प्रधान सचिव,  
 आबकारी एवं कराधान।

[*Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

## EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

### Notification No. 17/2020-State Tax

*Shimla-2, the 23rd June, 2020*

**No. EXN-F(10)-4/2020.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely:—

- (a) Individual;  
 (b) authorised signatory of all types;  
 (c) Managing and Authorised partner; and  
 (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,  
*Principal Secretary (E&T).*

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं० 18/2020—राज्य कर

शिमला—2, 23 जून, 2020

**संख्या:ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4 / 2020.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 25 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की